



# भारत का राजपत्र The Gazette of India

असाधारण  
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)  
PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित  
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं० 325] नई दिल्ली, शुक्रवार, अगस्त 10, 1979/श्रावण 19, 1901  
No. 325] NEW DELHI, FRIDAY, AUGUST 10, 1979/SRAVANA 19, 1901

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में  
रखा जा सके ।

Separate paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate compilation

विधि, ग्याय और कम्पनी कार्य मन्त्रालय

(विधायी विभाग)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 10 अगस्त, 1979

का. भा. 459(अ).—राष्ट्रपतीय और उप-राष्ट्रपतीय  
निर्वाचन अधिनियम, 1952 (1952 का 31) की धारा 12  
के उपबन्धों के अनुसरण में निम्नलिखित घोषणा, जिसमें  
भारत के उप-राष्ट्रपति पद के लिए निर्वाचित व्यक्ति का  
नाम दिया गया है, सर्वसाधारण की जानकारी के लिए  
प्रकाशित की जाती है :—

घोषणा

राष्ट्रपतीय और उप-राष्ट्रपतीय निर्वाचन अधिनियम,  
1952 (1952 का 31) की धारा 8 के खण्ड (क) में अन्त-  
विष्ट उपबन्धों के अनुसरण में, मैं, एस. एस. भालेराव,

486G1/79

उप-राष्ट्रपतीय निर्वाचन के लिए रिटर्निंग आफिसर, यह  
घोषणा करता हूँ कि श्री मोहम्मद हिदायतुल्लाह, ए/10,  
रोकसाइड, 112, बालकेश्वरा रोड, मुम्बई, जो एकमात्र  
अभ्यर्थी हैं जिन्हें विधि मान्यता नाम निर्दिष्ट किया गया  
है और जिन्होंने इस प्रयोजन के लिए विनिर्दिष्ट रीति से  
और समय के भीतर अपनी अभ्यर्थता वापस नहीं ली है, भारत  
के उप-राष्ट्रपति पद के लिए सम्यक् रूप से निर्वाचित हुए  
हैं ।

एस. एस. भालेराव,

उपराष्ट्रपतीय निर्वाचन के लिए रिटर्निंग आफिसर,

नई दिल्ली

अगस्त 9, 1979

[सं. एफ. 13(5)/79-वि. 2]

आर. वी. एस. पेरिशाल्स्की, सचिव ।

**MINISTRY OF LAW, JUSTICE AND COMPANY  
AFFAIRS****(Legislative Department)****NOTIFICATION**

New Delhi, the 10th August, 1979

**S.O. 459(E).**—In pursuance of the provisions of section 12 of the Presidential and Vice-Presidential Elections Act, 1952 (31 of 1952), the following declaration containing the name of the person elected to the office of Vice-President of India is published for general information :—

**DECLARATION**

"In pursuance of the provisions contained in clause (a) of section 8 of the Presidential and Vice-Presidential Elections Act, 1952 (31 of 1952), I, S. S. Bhalerao, the Returning Officer

for the Vice-Presidential Election, hereby declares that **Shri Mohammad Hidayatullah**, A/10, Rockside, 112, Walkeshwar Road, Bombay, being the only candidate who has been validly nominated and who has not withdrawn his candidature in the manner and within the time specified for the purpose, has been duly elected to the office of Vice-President of India.

S. S. BHALERAO, Returning Officer

for Vice-Presidential Election."

New Delhi :

August 9, 1979.

[No. F. 13(5)/79-Leg. II]

R. V. S. PERI SASTRI, Secy.